



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2017/आषाढ़ 9, 1939

No. 574]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2017/ASADHA 9, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 56/2017-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 797(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के क्रमशः शीर्ष 8443 और शीर्ष 8517 के अधीन आने वाले मालों की वस्तुओं और उनके पुर्जों पर उद्ग्रहणीय आयात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची निम्नलिखित रीति में, संशोधित की जाएगी, अर्थात् :-

उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के खंड 16 में,—

(i) अध्याय 84 में, टैरिफ मद 8443 32 90, 8443 99 51, 8443 99 52, 8443 99 53 के सामने ;

और

(ii) अध्याय 85 में, टैरिफ मद 8517 12 10, 8517 12 90, 8517 61 00, 8517 70 90 के सामने,

स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 354/20/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2017

No. 56/2017—Customs

G.S.R. 797(E).—WHEREAS the Central Government on being satisfied that the import duty leviable on articles and parts thereof, of goods, falling under headings 8443 and 8517 respectively of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), should be increased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8A of the said Customs Tariff Act, the Central Government, hereby directs that the First Schedule to the said Customs Tariff Act, shall be amended in the following manner, namely:-

In the First Schedule to the said Customs Tariff Act, in Section XVI, -

- (i) in Chapter 84, against tariff items 8443 32 90, 8443 99 51, 8443 99 52, 8443 99 53; and
- (ii) in Chapter 85, against tariff items 8517 12 10, 8517 12 90, 8517 61 00, 8517 70 90,

for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/20/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 57/2017-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 798(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, यथास्थिति, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद में आने वाले विवरण के मालों को, जब उनका भारत में आयात किया जाता है, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में मानक दर पर यथा-संगणित रकम से अधिक है, इस अधिसूचना के उपाबंध में यथा-विनिर्दिष्ट किसी शर्त के अधीन रहते हुए, जिसकी शर्त संख्या उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है, छूट प्रदान करती है।

सारणी

क्रम. सं.	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	मानक दर	शर्त सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	4016 99 90	सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (i) माइक्रोफोन रबड़ केस (ii) सेंसर रबड़ केस/सिलिंग गार्केट, जिसके अंतर्गत रबड़ जैसे एस.बी.आर., ई.पी.डी.एम., सी.आर., सी.एस.,	10%	1

		सिलिकान से सिलिंग गास्केट/ केस और सभी अन्य व्यष्टिक रबड़ या संयोजन/ रबड़ों के संयोजन हैं		
2.	7318 15 00	सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए पेच	10%	1
3.	7326 90 99	सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए सिम साकेट/अन्य यांत्रिक मर्दे (धातु)	10%	1
4.	8517 12	सैलुलर नेटवर्कों से भिन्न अन्य बेतार नेटवर्कों के लिए टेलीफोन	कुछ नहीं	-
5.	8517 70 90	(क) सैलुलर मोबाइल फोन के पुर्जों से भिन्न अन्य माल (ख) पूर्वोक्त (क) में वर्णित पुर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या उपपुर्जे	कुछ नहीं	-
6.	कोई अध्याय	(क) सैलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (i) मुद्रित परिपथ बोर्ड संयोजन (पीसीबीए) (ii) कैमरा मोड्यूल (iii) कनेक्टर (iv) डिस्पले असेम्बली (v) टच पैनल/कवर ग्लास असेम्बली (vi) वाईब्रेटर मोटर/रिंगर	कुछ नहीं	1
		(ख) पूर्वोक्त (क) में वर्णित पुर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे	कुछ नहीं	1
		(ग) पूर्वोक्त (ख) में वर्णित पुर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या उपपुर्जे	कुछ नहीं	1
7.	कोई अध्याय	सैलुलर मोबाइल फोन के निम्नलिखित पुर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या कच्ची सामग्रियां :- (i) चार्जर या एडैप्टर (ii) बैटरी पैक (iii) वायरड हैड सेट (iv) बैटरी कवर (v) फ्रंट कवर (vi) फ्रंट कवर (जस्ता कास्टिंग के साथ) (vii) मिडल कवर (viii) जीएसएम एन्टीना/किसी प्रौद्योगिकी का एन्टीना (ix) साइड की (x) मुख्य लेंस (xi) कैमरा लेंस (xii) पेच (xiii) माइक्रोफोन रबड़ केस (xiv) सेंसर रबड़ केस/सिलिंग गास्केट, जिसके अंतर्गत रबड़ जैसे एस.बी.आर., ई.पी.डी.एम., सी.आर., सी.एस., सिलिकान से सिलिंग गास्केट/केस और सभी अन्य व्यष्टिक रबड़ या संयोजन/रबड़ों के संयोजन हैं	कुछ नहीं	1

		(xv) पीयू केस/सिलिंग गास्केट – पालीयूरेथेन फोम की अन्य वस्तुएं, जैसे सिलिंग गास्केट केस (xvi) पीई, पीपी, पीपीएस, पीसी से सिलिंग गास्केट/केस और सभी अन्य व्यष्टिक पालीमर या संयोजन/पालीमरों के संयोजन (xvii) सिम साकेट/अन्य यांत्रिक मर्दे (धातु) (xviii) सिम साकेट/अन्य यांत्रिक मर्दे (प्लास्टिक) (xix) बैक कवर (xx) कंडक्टिव क्लायथ (xxi) हीट डिसेपेशन स्टीकर बैटरी कवर (xxii) स्टीकर बैटरी स्लाट (xxiii) मुख्य लैंस के लिए संरक्षा फिल्म (xxiv) एलसीडी एफपीसी के लिए माइलार (xxv) एलसीडी कंडक्टिव फोम (xxvi) फिल्म फ्रंट फ्लैश (xxvii) एलसीडी फोम (xxviii) बीटी फोम (xxix) माइक्रोफोन और रिसीवर (xxx) की पैड (xxxi) यूएसबी केबल		
8.	कोई अध्याय	निम्नलिखित पुर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या कच्ची सामग्रियां :- (i) किसी स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन या किसी नेटवर्क से कनेक्ट होने में समर्थ अन्य मशीनें (8443 32 90) (ii) प्रिंट हेड संयोजन के साथ इंक कार्ट्रिज (8443 99 51) (iii) प्रिंट हेड संयोजन के बिना इंक कार्ट्रिज (8443 99 52) (iv) इंक स्प्रे नोजल (8443 99 53) (v) बेस स्टेशन (8517 61 00) (vi) टैरिफ मद 8517 62 90 के अंतर्गत आने वाले सभी माल (vii) टैरिफ मद 8517 69 90 के अंतर्गत आने वाले सभी माल	कुछ नहीं	1

उपाबंध

शर्त सं.	शर्तें
1.	यदि आयातकर्ता, सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करता है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 354/20/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

No. 57/2017—Customs

G.S.R. 798(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description as specified in column (3) of the Table below, as the case may be, and falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as are specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the standard rate as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table subject to any of the conditions, as specified in the Annexure to this notification, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table.

TABLE

S.No.	Chapter or Heading or Sub-heading or tariff item	Description of goods	Standard rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	4016 99 90	The following goods for use in manufacture of cellular mobile phones, namely :- (i) Microphone Rubber Case (ii) Sensor Rubber Case / Sealing Gasket including sealing gaskets / cases from Rubbers like SBR, EPDM, CR, CS, Silicone and all other individual rubbers or combination / combination of rubbers	10%	1
2.	7318 15 00	Screw for use in manufacture of cellular mobile phone	10%	1
3.	7326 90 99	SIM socket / Other Mechanical items (Metal) for use in manufacture of cellular mobile phones	10%	1
4.	8517 12	Telephones for other wireless networks, other than cellular networks	Nil	-
5.	8517 70 90	(a) All goods other than the parts of cellular mobile phones (b) Inputs or sub-parts for use in manufacture of parts mentioned at (a) above	Nil	-
6.	Any Chapter	(a) The following goods for use in manufacture of cellular mobile phones, namely :- (i) Printed Circuit Board Assembly (PCBA) (ii) Camera Module (iii) Connectors (iv) Display Assembly (v) Touch Panel / Cover Glass Assembly (vi) Vibrator Motor / Ringer (b) Inputs or parts for use in manufacture of items mentioned at (a) above (c) Inputs or sub-parts for use in manufacture of parts mentioned at (b) above	Nil Nil Nil	1 1 1
7.	Any Chapter	Inputs or raw material for use in manufacture of following parts of Cellular mobile phones; (i) Charger or adapter (ii) Battery pack (iii) Wired Headset (iv) Battery cover	Nil	1

		<ul style="list-style-type: none"> (v) Front cover (vi) Front cover (with Zinc Casting) (vii) Middle cover (viii) GSM Antenna / Antenna of any technology (ix) Side Key (x) Main Lens (xi) Camera Lens (xii) Screw (xiii) Microphone Rubber Case (xiv) Sensor Rubber Case / Sealing Gasket including sealing gaskets / cases from Rubbers like SBR, EPDM, CR, CS, Silicone and all other individual rubbers or combination / combination of rubbers (xv) PU case / Sealing Gasket – Other articles of Polyurethane foam like sealing gaskets / case (xvi) Sealing Gaskets / Cases from PE, PP, EPS, PC and all other individual polymers or combination / combination of polymers (xvii) SIM socket / Other Mechanical items (Metal) (xviii) SIM Socket / Other Mechanical items (Plastic) (xix) Back Cover (xx) Conductive Cloth (xxi) Heat Dissipation Sticker Battery Cover (xxii) Sticker-Battery Slot (xxiii) Protective Film for main Lens (xxiv) Mylar for LCD FPC (xxv) LCD Conductive Foam (xxvi) Film-Front Flash (xxvii) LCD Foam (xxviii) BT Foam (xxix) Microphone and Receiver (xxx) Key Pad (xxxi) USB Cable 		
8.	Any Chapter	<p>Inputs or raw material for use in manufacture of following goods namely :-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Other machines capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network (8443 32 90) (ii) Ink cartridges, with print head assembly (8443 99 51) (iii) Ink cartridges, without print head assembly (8443 99 52) (iv) Ink spray nozzle (8443 99 53) (v) Base stations (8517 61 00) (vi) All goods falling under tariff item 8517 62 90 (vii) All goods falling under tariff item 8517 69 90 	Nil	1

ANNEXURE

Condition No.	Conditions
1.	If the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.

This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/20/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 58/2017-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 799(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 122(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

(i) क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
"2	8443 31 00	सभी माल
2क	8443 32 10	सभी माल
2ख	8443 32 20	सभी माल
2ग	8443 32 30	सभी माल
2घ	8443 32 40	सभी माल
2ङ	8443 32 50	सभी माल
2च	8443 32 60	सभी माल";

(ii) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
"4	8443 99 (8443 99 51, 8443 99 52, 8443 99 53 के सिवाय)	निम्नलिखित मालों के पुर्जे और उपसाधन (प्रिंट हैड संयोजन के साथ इंक काट्रेज ; प्रिंट हैड संयोजन के बिना इंक काट्रेज ; इंक स्प्रे नोजल के सिवाय), अर्थात् :-- (क) टैरिफ मद 8443 31 00 ; 8443 32 10, 8443 32 20, 8443 32 30, 8443 32 40, 8443 32 50, 8443 32 60 के अंतर्गत आने वाले सभी माल ;

		(ख) इलैक्ट्रोस्टेटिक फोटोकापिंग साधित्र, प्रति पर सीधे मूल इमेज को पुनः उत्पादित करके प्रचालन (सीधे प्रोसेस) ; और (ग) किसी प्रकाशिक प्रणाली को निगमित करके, इलैक्ट्रोस्टेटिक से भिन्न फोटोकापिंग साधित्र ";
--	--	--

(iii) क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
"13क	8517 11 10	सभी माल
13ख	8517 11 90	सभी माल
13ग	8517 18 10	सभी माल
13घ	8517 18 90	सभी माल
13ङ	8517 62 10	सभी माल
13च	8517 62 20	सभी माल
13छ	8517 62 30	सभी माल
13ज	8517 62 40	सभी माल
13झ	8517 62 50	सभी माल
13ञ	8517 62 60	सभी माल
13ट	8517 62 70	सभी माल
13ठ	8517 69 10	सभी माल
13ड	8517 69 20	सभी माल
13ढ	8517 69 30	सभी माल
13ण	8517 69 40	सभी माल
13त	8517 69 50	सभी माल
13थ	8517 69 60	सभी माल
13द	8517 69 70	सभी माल
13ध	8517 70 10	सभी माल";

(iv) क्रम सं. 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 354/20/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 122(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 32/2016-सीमाशुल्क, तारीख 5 मई, 2016, सा.का.नि. 487(अ) तारीख 5 मई, 2016 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

No. 58/2017—Customs

G.S.R. 799(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 24/2005-Customs, dated the 1st March, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 122(E), dated the 1st March, 2005, namely :-

In the said notification, in the Table,-

- (i) for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“2	8443 31 00	All goods
2A	8443 32 10	All goods
2B	8443 32 20	All goods
2C	8443 32 30	All goods
2D	8443 32 40	All goods
2E	8443 32 50	All goods
2F	8443 32 60	All goods”;

- (ii) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“4.	8443 99 (except 8443 99 51, 8443 99 52, 8443 99 53)	Parts and accessories of the following goods (except Ink cartridges, with print head assembly; Ink cartridges, without print head assembly; Ink spray nozzle) namely :- (a) All goods falling under tariff items 8443 31 00; 8443 32 10, 8443 32 20, 8443 32 30, 8443 32 40, 8443 32 50, 8443 32 60; (b) Electrostatic photocopying apparatus, operating by reproducing the original image directly onto the copy (direct process); and (c) Photocopying apparatus, other than electrostatic, incorporating an optical system”;

- (iii) for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“13A	8517 11 10	All goods
13B	8517 11 90	All goods
13C	8517 18 10	All goods
13D	8517 18 90	All goods
13E	8517 62 10	All goods
13F	8517 62 20	All goods
13G	8517 62 30	All goods
13H	8517 62 40	All goods
13I	8517 62 50	All goods
13J	8517 62 60	All goods
13K	8517 62 70	All goods
13L	8517 69 10	All goods
13M	8517 69 20	All goods
13N	8517 69 30	All goods

13O	8517 69 40	All goods
13P	8517 69 50	All goods
13Q	8517 69 60	All goods
13R	8517 69 70	All goods
13S	8517 70 10	All goods”;

(i) serial number 40 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/20/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note: The principal notification No. 24/2005-Customs, dated the 1st March, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 122(E), dated the 1st March, 2005 and last amended by notification No. 32/2016-Customs, dated the 5th May, 2016 *vide* number G.S.R. 487(E), dated the 5th May, 2016.